

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2702
गुरुवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राष्ट्रीय पर्यटन युवा क्लब

2702. श्री नारायण कोरागप्पा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पर्यटन युवा क्लबों (एनटीवाईसी) की स्थापना की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कर्नाटक में क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर पर एनटीवाईसी की स्थापना की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या कर्नाटक में एनटीवाईसी संबंधी गतिविधियां शुरू की गई हैं; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "आजादी का अमृत महोत्सव" के आयोजनों के सिलसिले में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवा पर्यटन क्लबों का गठन करने की शुरुआत की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देश में सीबीएससी से संबद्ध स्कूलों में युवा पर्यटन क्लबों के गठन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति पर्यटन मंत्रालय की इस पहल में सहायता के लिए आगे आए हैं। देश के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने पहले ही युवा पर्यटन क्लबों का गठन भी कर लिया है।

(ङ) जी हां, महोदय।

(च):

- (1) ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आईटीओ, बेंगलुरु ने केन्द्रीय विद्यालय, आईआईएससी, बेंगलुरु के युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों के लिए दिनांक 07

दिसंबर, 2022 को आदर्श विरासत गांव, रंगोली गार्डन, जक्कुर, बेंगलुरु के एक भ्रमण-यात्रा का आयोजन किया।

- (2) जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने और आतिथ्य एवं पर्यटन के महत्व से ग्रामीण समुदाय को अवगत कराने के लिए, आईटीओ, बेंगलुरु ने दिनांक 20 जनवरी, 2023 को सेंट क्लेरेट कॉलेज, बेंगलुरु के युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों हेतु सोलिगा जनजातीय समुदाय, बीआर हिल्स, कर्नाटक के एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया।
- (3) राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के एक भाग के रूप में और जिम्मेदार पर्यटन के संवर्धन के लिए, आईटीओ, बेंगलुरु ने दिनांक 25 जनवरी, 2023 को होटल मैनेजमेंट स्टडीज, रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, बेंगलौर के युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया।
- (4) कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और कला शैली को प्रदर्शित करने के लिए, आईटीओ, बेंगलुरु ने एक सांस्कृतिक संध्या आयोजित की और उत्तर-पूर्वी भारत के ईबीएसबी कार्यक्रम के तहत उन युवा संगम सदस्यों के लिए सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आईआईटीजी (अतुल्य भारत पर्यटक गाइड) सेवाएं प्रदान कीं, जिन्होंने दिनांक 03 मार्च से 07 मार्च 2023 तक बेंगलौर और मैसूर का भ्रमण किया था। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे शिक्षा, पर्यटन, रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य और खेल मंत्रालयों द्वारा इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था।
